



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 16, 2019
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 11, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9784 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Uniara has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Uniara. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका उनियारा (टोंक)

प्रफॉर्मा "क"

वार्ड संख्या	वार्ड सीमा का विवरण
1	टोंक रोड कामधेनू सर्किल से उत्तर की ओर चलकर अन्डरपास को लेते हुए पूर्व की ओर चलकर डाबला रोड को लेते हुए गोल्डन सिटी को लेते हुए उपखण्ड कार्यालय को लेते हुए सरदार स्कूल को लेते हुए पूर्व की ओर गलवा माईनर के सहारे सहारे दायी सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए वापिस दक्षिण दिशा में घुमते हुए सन्त सुन्दरदास धर्मशाला महाराणा प्रताप महाविद्यालय को शामिल करते हुए नाले के सहारे सहारे स.मा- रोड पर पुलियां पर रमेश जी बडाया की दुकान को शामिल करते हुए पूर्व की ओर चलते हुए कमरूद्वीन के मकान को लेकर दक्षिण की तरफ गली में होकर मोहम्मद्वीन जी मास्टर के मकान को लेते हुए पश्चिम की तरफ ककोड गेट दरवाजे की बायी तरफ सम्पूर्ण आबादी लेते हुए उत्तर में चलते हुए उनियारा केन्टिन को शामिल करते हुए नये बस स्टेण्ड को शामिल करते हुए उत्तर दिशा में चलते हुए हनुमाननगर को शामिल करते हुए ईदगाह मुंसिफ कोर्ट को शामिल करते हुए मैसी टेक्टर शोरूम को शामिल करते हुए टोंक पश्चिम की तरफ टोंक रोड के सहारे सहारे बाईपास तक।

2	<p>कमरूद्वीन जी पार्षद के गोदाम से दक्षिण दिशा की तरफ शुरू होकर नैनवां रोड नहर के सहारे सहारे नैनवां रोड पर कार्नर से पूर्व दिशा की तरफ उत्तर की ओर घुमते हुए श्याम वाटिका को लेते हुए सम्पूर्ण बागर बस्ती को लेते हुए पूर्व की ओर चलते हुए महादेव मंदिर को लेते दक्षिण की तरफ चलते हुए थाना को लेते हुए आरामशीन कजोड खीचीं कॉलोनी अम्बिका कॉलोली को लेते हुए पश्चिम की ओर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय आर्यन स्कूल पेटेल पम्प को लेते हुए वापस कमरूद्वीन जी गोदाम तक ।</p>
3	<p>बडी नहर नैनवां रोड से शुरू होकर पूर्व दिशा से तालाब में होकर मोईन ठेकेदार के मकान को शामिल करते हुए नन्हे खां के मकान को लेते हुए दक्षिण की तरफ जलमहल को लेते हुए प्याल के बालाजी तक दायी ओर की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुए माथूर साहब के मकान को शामिल करते हुए पुरानी ककोड गेट स्कूल को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर ककोड दरवाजे को शामिल करते हुए बायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी की शामिल करते हुए उत्तर की ओर चलकर नगरपालिका की दुकानों को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर चलकर गर्ल्स स्कूल पीएचईडी नगरपालिका भवन को शामिल करते हुए एस्सार पेट्रोल पम्प जवाईपुरा की बायी ओर की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए वापस बडी नहर नैनवां रोड तक।</p>
4	<p>प्याल के बालाजी के सामने एच पोल से छप्पन जी मंदिर को लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पाल के सहारे सहारे बायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए भूतेश्वर महादेव मंदिर को शामिल करते हुए भूतेश्वर गेट के बाहर होते हुए बालाजी मंदिर को लेते हुए उत्तर की ओर चलकर सत्यनारायण भडाणा रामकिशन गुर्जर सहित बायी ओर की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए किस्तुर महावर को लेते हुए कमालु तेली को लेते हुए पूर्व की ओर चलकर राजेन्द्र खीची के मकान को शामिल करते हुए उत्तर की ओर चलकर बलाईयो की कुई को शामिल करते हुए प्याल के बालाजी तक।</p>
5	<p>रघुनाथ जी मंदिर से शुरू होकर पश्चिम की ओर चलकर ललित बडाया के मकान को लेते हुए सत्यनारायण कलाल के मकान को शामिल करते हुए सत्यनारायण अरोडा के मकान को शामिल करते हुए हनुमान दाल मील को लेते हुए दक्षिण की ओर गुलमोहम्मद पीटीआई दुर्गादास खीचीं फुलचन्द खीची सोभाग हरिजन को शामिल करते हुए बायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए पूर्व की ओर वैष्णो मंदिर को शामिल करते हुए भूपेन्द्र कलाल को लेते हुए कीरो के मंदिर बाबूलाल मिर्चीवाले के मकान को शामिल करते हुए बायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए भागचन्द की दुकान को शामिल करते हुए रघुनाथ जी के मंदिर तक।</p>
6	<p>कैलाश साहू के मकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए प्रभूकोली के मकान को शामिल करते हुए</p>

	मोहनलाल महावर के मकान को शामिल करते हुए दायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए कन्हैयालाल कलाल के मकान को शामिल करते हुए पूर्व की ओर चलकर मोहन खीची के मकान को शामिल करते हुए दायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए वापस दक्षिण की ओर चलकर हरिओम हरिजन रामदेव मंदिर को लेते हुए हंसराज बैरवां के मकान को लेते हुए पश्चिम दिशा की ओर हंसराज बैरवां के मकान को शामिल करते हुए दायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए वापस कैलाश साहू तक।
7	रामस्वरूप ड्राईवर से पूर्व दिशा में चलकर प्रभू फोजी के मकान को शामिल करते हुए कजोड कुशवाह के मकान को शामिल करते हुए बायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए उत्तर की ओर चलकर अशोक कुमावत के मकान को शामिल करते हुए भैरू प्रजापत के मकान को शामिल करते हुए राधेश्याम वाल्मिकी के मकान को शामिल करते हुए बायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए वापस पश्चिम की ओर चलकर जुगल जी बैरवां के मकान को शामिल करते हुए बट्टी ठेकेदार को शामिल करते हुए मालियो की बाडी को शामिल करते हुए आन्नदीलाल साहू को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर चलकर जिगर साहब के मकान को शामिल करते हुए रामस्वरूप ड्राईवर तक।
8	हनुमान कुशवाह पार्षद के मकान से पूर्व की ओर चलकर कच्चे कोर्ट कोर्ट राजकुमारो की बारी तक बायी तरफ सम्पूर्ण आबादी लेते हुए परकोटे के सहारे सहारे मालियो की बाडी को शामिल करते हुए नगरपालिका के सुलभ कॉम्पलेक्स को शामिल करते हुए सत्यनारायण हरिजन के मकान को शामिल करते हुए वापस दक्षिण की ओर चलकर मोहनलाल हरिजन रामस्वरूप हरिजन देवीलाल महावर के मकान को शामिल करते हुए लल्लूलाल कुमावत के मकान को शामिल करते हुए मार्ग क्रॉस करते हुए पश्चिम की ओर सम्पूर्ण भैरूजी के चौक को लेते हुए केतवाली कुई को शामिल करते हुए बायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए पुराने पशु चिकित्सालय को शामिल करते हुए वापस हनुमान कुशवाह पार्षद के मकान तक।
9	राधेश्याम बैण्डवाले की दुकान से शुरू हांकर पूर्व की ओर चलकर गीता भवन तक दायी ओर की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए दक्षिण की ओर सुनारो के मकान लीलाधर अरोड रमेश पटवा राजेन्द्र साहू जगदीश साहू घांसीलाल प्रजापत छीतर बैरवां के मकानो को शामिल करते हुए दायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए पश्चिम में चलकर रमेश हरिजन के मकान को शामिल करते हुए वापस उत्तर की ओर चलकर संजय हरिजन राकेश खीची छप्पन कम्पाउण्डर मदन आकड के मकानो को शामिल करते हुए दायी तरफ तरफ सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए वापस राधेश्याम बैण्डवाले की दुकान तक।
10	प्रकाश सुनार की दुकान से शुरू होकर दक्षिण खाई में परकोटे के सहारे सहारे चलकर दायी तरफ

	<p>की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए मालियो की बाडी के उत्तरी पूर्वी कोण तक शामिल करते हुए वापस पश्चिम में मालियो की बाडी में से चलकर सुलभ कॉम्पलेक्स के पीछे से चलकर नारायण हरिजन के मकान को शामिल करते हुए पूर्व में कलाली के मकान को शामिल करते हुए नवेली हवेली सिन्धव साहब के मकानो को शामिल करते हुए दायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए मित्तल लखेरो के मकानो गोल प्याउ होते हुए दायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए वापस प्रकाश सुनार की दुकान तक।</p>
11	<p>अशोक जैन के मकानो से पूर्व दिशा में चलकर कटला गेट के बाहर विजय बहादुर सिंह जी के मकानो को लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए दायी तरफ की आबादी को लेते हुए विश्वनाथ सिंह जी के मकान को लेते हुए सुखदेव शर्मा के मकान को शामिल करते हुए वापस रोड क्रॉस करते हुए फुलचन्द जी हलवाई के मकान को शामिल करते बायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी शामिल करते हुए पूर्व की ओर चलकर हुए नन्दा सैन के मकान को शामिल करते हुए भागेन्द्र सिंह के मकान को शामिल करते हुए उतर की ओर चलकर रूपचन्द गुप्ता के मकान को लेते हुए चन्द्रप्रकाश जैन के मकान को शामिल करते हुए शिवराज सिंह राव के मकान को शामिल करते हुए बायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए प्रभू मिस्त्री के मकान को शामिल करते हुए बायी तरफ की आबादी लेते हुए वापस अशोक जैन तक ।</p>
12	<p>जयेन्द्र सिंह के मकान से शुरू होकर परकोटे के सहारे सहारे बायी तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए खातोली गेट तक दक्षिण की ओर चलकर विमल पारीक के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर तुलसीराम गुर्जर कानसिंह के मकान को लेते हुए दोनो तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए कालू मेरोठा से दक्षिण की तरफ चलकर रामफुल मेरोठा के मकान को शामिल करते हुए राणावत साहब की हवेली महेन्द्र मीणा के मकान को शामिल करते हुए रामस्वरूप पालीवाल के मकान को शामिल करते हुए भोमसिंह मकान को शामिल करते हुए लादू प्रजापत के मकान को शामिल करते हुए राधेश्याम सैन विजेन्द्र सिंह मकान को शामिल करते हुए रामलाल प्रजापत के मकान को शामिल करते हुए रोड क्रॉस करते हुए वापस जयेन्द्र सिंह के मकान तक</p>
13	<p>अंगद राणा के मकान से शुरू होकर उत्तर की ओर चलकर गढ की दीवार के सहारे सहारे होते हुए जैन मंदिर को लेते हुए सम्पूर्ण गढ को लेते हुए रोड क्रॉस कर मदन सिंह थानेदार का मकान शामिल करते हुए नमोनारायण गोत्तम के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर चलकर संसार पारीक के मकान को लेते हुए भण्डारी के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर चलकर बायी ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए जम्बू बिलाला के मकान को लेते हुए वापिस पूर्व की ओर चलकर औंकार सिंह जी के मकान को शामिल करते हुए गढ रोड पर चलते हुए बायी ओर आबादी लेते हुए पुरानी पीडब्ल्यूडी आफिस को लेते हुए रोड क्रॉस कर दक्षिणकी ओर प्रेमचन्द जी</p>

	एडवोकेट शंकरलाल जी ठाडा के मकान को लेते हुए सत्यनारायण शर्मा के मकान को शामिल करते हुए पूर्व की ओर चलकर अंगद राणा के मकान तक
14	पारस जैन हलवाई से शुरू होकर उत्तर की तरफ राजकुमार काला को लेते हुए वैकेण्टश्वर मंदिर को शामिल करते हुए विमल डोसी दिनेश साहू आदि के मकान को शामिल करते हुए किशन सिंह के मकान को लेते हुए बायीं तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए जम्बू बिलाला के सामने वाले मकान को लेते हुए दक्षिण की तरफ होकर लादू सिंह के मकान को शामिल करते हुए नवल सुनार सुरेन्द्र साहू नरोत्तम शर्मा के मकान को लेते हुए पूर्व की ओर चलकर ललित जैन कान्ह सिंह राव मोहन शर्मा के मकान को लेते हुए गगरानी के मकान को लेते हुए रघुनन्दन गोत्तम के मकान को लेते हुए पूर्व की ओर चलकर पारस जैन हलवाई के मकान तक
15	सिहद्वार से शुरू होकर पुरानी नगरपालिका आफिस क्रय विक्रय गोदाम को शामिल करते हुए वापस परकोटे के सहारे सहारे पूर्व की ओर चलकर सुरजीत सिंह के मकान को शामिल करते हुए परकोटे के सहारे सहारे उत्तर की ओर चलकर रतनलाल माली के मकान को शामिल करते हुए बायीं ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए पूर्व दिशा की ओर परकोटे के सहारे सहारे चलकर सत्यनारायण बैरागी के मकान को शामिल करते हुए दायीं तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए जगदीश कुशवाह शंकर कुशवाह आन्नदीलाल कुशवाह कुशवाहा मंदिर को शामिल करते हुए रमाकान्त जोशी सत्यनारायण पण्डा के मकान को लेते हुए भगवान सिंह के मकान को लेते हुए दायीं ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए रोड क्रॉस करते हुए दक्षिण की तरफ जैन स्थानक राधाकिशन जी नागर को लेते हुए पश्चिम की ओर घुमकर ओम सैन भंवरलाल जी एसडीआई के मकानो को शामिल करते हुए बलबीर बाबा के मकानो को शामिल करते हुए दायीं तरफ की सम्पूर्ण आबाद लेते हुए नन्द पोरवाल के मकान को शामिल करते हुए रोड क्रॉस करते हुए सिंद्व द्वार तक।
16	चक्की के नोहरे से शुरू होकर शुरू होकर पूर्व की ओर चलकर कान्हा माली के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ चलकर मनोज पारीक के मकान को शामिल करते हुए वापिस पूर्व की तरफ रोड क्रॉस कर नीचे चेतन पारीक के मकान को शामिल करते हुए पूर्व की ओर चलते हुए बायीं तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए बट्टीलाल माली के मकान को शामिल करते हुए उत्तर की तरफ चलकर मंगलराम पीटीआई जी नन्दलाल पांचाल प्रेम जी पोरवाल को शामिल करते हुए रोड क्रॉस कर शंकर तेली की दुकान को शामिल करते हुए पश्चिम की तरफ चलकर किशन सिंह गोड के मकान को शामिल करते हुए बहादुर सिंह गोपालसिंह के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर घुमकर दक्षिण की ओर घुमकर राजवीर सिंह के मकान को शामिल करते हुए बायीं ओर की सम्पूर्ण आबादी देते हुए छीतर जी राव भंवर सिंह मास्टर के मकान को लेते हुए रोड क्रॉस

	करते हुए छोटू गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए बायीं ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए रोड क्रॉस करते हुए मांगीलाल दरोगा के मकान को शामिल करते हुए रोड क्रॉस करते हुए बाईंजी के मंदिर से पश्चिम की ओर चलकर लाल हवेली को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ चलकर भंवरदादा के मकान को शामिल करते हुए वापस पूर्व की ओर चलकर चक्की के नोहरे तक।
17	जगदीश कुशवाह चक्की वाले के मकान से शुरू होकर पश्चिम की ओर पप्पु कुशवाह के मकान को लेते हुए दायीं ओर की आबादी लेते हुए गोपाल कुशवाह प्रहलाद कुशवाह के मकानों को शामिल करते हुए परकोटे के सहारे सहारे वापस पूर्व की ओर खातोली गेट होकर वापस गिर्राज लुहार की दुकान को शामिल करते हुए भंवरसिंह जी गोड के मकान को लेकर सत्यनारायण बैरागी के मकान को लेकर गोवर्धन सिंह नाकेदार के मकान को शामिल करते हुए दायीं ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए भारत सिंह जी बाबासा के मकान को लेकर स्वरूप दादा के मकान को लेकर राजेन्द्र सिंह जी हवेली को लेकर दायीं ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए होशियार सिंह के मकान को लेकर रोड क्रॉस करते हुए श्याम सिंह जी के मकान को लेकर दायीं ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए रामसिंह पटवारी के मकान को लेते हुए गिर्राज शर्मा के मकान को शामिल करते हुए रामकल्याण टेलर के मकान को शामिल करते हुए रोड क्रॉस करते हुए धर्मप्रकाश के मकान को शामिल करते हुए दायीं ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए रोड क्रॉस कर वापस जगदीश कुशवाह के मकान तक।
18	सत्यप्रकाश मंयक की दुकान से शुरू होकर पश्चिम की तरफ चलकर जैन मंदिर को लेते हुए मुख्य बाजार होते हुए कुंजडो की गली में उत्तर की ओर चलकर रमेश हलवाई के मकान को लेते हुए अनीस भैया जी के मकान को लेते हुए वापस पूर्व की तरफ चलकर जैन धर्मशाला को शामिल करते हुए इन्द्रमल जैन को लेकर रमेश सोनी के मकान को लेकर स.म. रोड पर कन्हैयालाल मीणा की दुकान को लेते हुए रोड क्रॉस करते हुए खेजडा वाले बाबा के यहां से ज्योतिबा फुले छात्रावास लेते हुए कृषि महाविद्यालय बंसल पेट्रोल को ओर से थाने की ओर चलकर राजकीय छात्रावास चामुण्डा माता शामिल करते हुए खातोली गेट भैरूजी मंदिर को शामिल करते हुए परकोटे के सहारे सहारे मुख्तार मियां के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण में परकोटे के सहारे चलते हुए भैरू लाल सैन कमल तेली के मकान को शामिल करते हुए सत्यप्रकाश मंयक की दुकान तक।
19	मुकेश खूटवाले के मकान से पश्चिम दिशा में बाबूलाल मिर्ची की दुकान तक दायीं ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए उत्तर की ओर चलकर रमेश जी बड़ाया ओम गुर्जर भैया जी भाई साहब के मकानों को शामिल करते हुए छतरियो को लेते हुए स.मा. रामद्वारा को शामिल करते हुए कान्हा माली को शामिल करते हुए कजोड माली को शामिल करते हुए जगदीश सैनी को शामिल करते हुए रामस्वरूप पीटीआई को शामिल करते हुए चन्द्रमोहन खण्डेलवाल को शामिल करते हुए दायीं

	<p>तरफ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए पश्चिम में चलकर नसरु के मकान को शामिल करते हुए रोड क्रॉस कर चन्द्रप्रकाश बाबर के मकान को शामिल करते हुए दायी ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए मुकेश खूटवाले के मकान तक।</p>
20	<p>शिवप्रसाद खीची की दुकान से चालू होकर पश्चिम की तरफ चलकर राजकीय चिकित्सालय मकबूल मियां का मकान को लेते हुए अलादीन लाखेरी वाले के मकान से रोड क्रॉस उत्तर की तरफ सकरी गली में होते हुए निसार साहब की दुकान को शामिल करते हुए स.मा. रोड परपूर्व की ओर चलकर नन्हे मौलाना के मकान को शामिल करते हुए छतरियो में होकर गुलशेर दादा का मकान लेते हुए सुब्बन मियां का मकान राम जी बडायया का मकान शामिल करते हुए माणक जी लुहाडिया का मकान लेते हुए दायी ओर की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए शिवप्रसाद खीची की दुकान तक।</p>

अधिशायी अधिकारी

नगरपालिका उनियारा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।